



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 भाद्र 1936 (श०)  
(सं० पटना 726) पटना, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2014

---

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

3 सितम्बर 2014

सं० 07/नि. (विधि-11) विविध - 60/2012-5040—चूँकि, अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 7289 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 के परिसमापन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु परिसमापक को सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) के तहत श्री ललन शर्मा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को संयुक्त परिसमापक एवं श्री कामेश्वर ठाकुर, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पटना को सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था;

और चूँकि, श्री ललन शर्मा, उप निबंधक एवं श्री कामेश्वर ठाकुर, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप श्री मनीष कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी, पटना-सह- परिसमापक, बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 को परिसमापन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सहायक परिसमापकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।

अतः मैं, हुकुम सिंह मीणा, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना सम्यक् विचारोपरांत बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) के तहत श्री मोहम्मद मुजीबुर्हमान, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना तथा श्री कैलाश चौधरी, अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पटना को बैंक कर्मचारी

स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 (विघटित) को क्रमशः संयुक्त परिसमापक एवं सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

नियुक्त संयुक्त परिसमापक और सहायक परिसमापक, परिसमापन की कार्यवाही में परिसमापक द्वारा आवंटित कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

आदेश से,

**हुकुम सिंह मीणा,**

निबंधक, सहयोग समितियाँ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 726-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>